



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023

कार्तिक 26, 1945 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 282/रा0नि0आ0अनु0-3/18-उप निर्वा0 प्रमुख-2023

लखनऊ, 17 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या 33-3099/830/2022-3, दिनांक 16 नवम्बर, 2023 द्वारा दिए गए परामर्श के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा क्षेत्र पंचायत असोहा, जनपद उन्नाव के प्रमुख के रिक्त स्थान/पद, जो मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ :-

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
22 नवम्बर, 2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	22 नवम्बर, 2023 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	23 नवम्बर, 2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	25 नवम्बर, 2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	25 नवम्बर, 2023 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के स्थान/पद के आरक्षण के सम्बन्ध में विवरण देते हुए उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-6(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से हिन्दी में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को निर्गत करेंगे तथा उसकी एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट) क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अंतिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम को सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित कराएंगे। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन-पत्रों की बिक्री प्रारम्भ हो जाएगी। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

3—यह उप निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद पर मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपर्युक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हैं। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा।

उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।